

Anjali Pohankar



Soulful Melodious Voice

Anjali Pohankar

Anjali Pohankar has already made a mark in the arena of Indian Music. Be it classical or the light versions like Thumari, Dadra, Ghazal and Bhajans, her versatile and sonorous voice combined with intellectual and imaginative "swar sanchar" makes a lasting impression on the minds of listener, common men and connoisseurs alike.

Born in Indore her formative years were nurtured by none other than her father Late Pt. Krishnarao Mujumdar a wellknown classical vocalist (Disciple of Late Ustad Rajab Ali Khan Saheb). She completed her M.A in Music from Jabalpur University passing out in First division. Then onwards she has been receiving training in classical music from her mother in law Dr. Sushila Pohankar, a noted musicologist and composer. Anjali in association with her husband, renowned vocalist, Pt. Ajay Pohankar has further enriched herself with nuances and classical music.

Singing since her childhood Anjali has been admired by giants like Pt. Kumar Gandharva, Pt. Jasraj, Dr. Vasantrao Deshpande, Shri P.L.Deshpande and others. Being an A.I.R artist for over 20 years she has performed at many places in India and abroad, prominent among them being "Triveni Festival" at Allahabad where she was awarded by "Triveni Award" and had privilege to perform on the same stage as the great Ustad Bismillah Khan. She has performed at the India Festival in Scotland in 1999 along with her husband Pt. Ajay Pohankar other prestigious venues being "Rimzim Festival" at Nehru Centre Mumbai, "Loksangeet and Raagsangeet" at Prithvi Theatre, Nehru Centre Mumbai, "Ninad", a stage show under the direction of Pt. Vijayaraghavarao, Spic Maccay series of concerts and others. She has sung for TV serials like Tippu Sultan, Mitti ka Karz, Intezar, Ghar and was specially invited to participate in TVS Sa re ga ma where she emerged winner. In 2004 she was awarded Senior Fellowship by the Government of India for her research in the subjects of Thumri and Dadra.

मदनमोहन की याद में

► मंगलवार २१ अगस्त २०००
 ► शाम : ८.००
 ► रवीन्द्र नाट्य गृह, इन्दौर



मदनमोहन एक संगीतकार ही नहीं भारतीय थियेटर संगीत का एक आराधना है।
 मदनमोहन की ब्रह्मिणी कवयित्री प्रो. अनामिका शर्मा
 पुणे के प्रसिद्ध श्रीकांत पारमणिक मदनमोहन और
 भारतीय थियेटर के मजदूरी संगीतकारों की
 शान्ति स्मृति का आयोजन करवाएंगे। भीमे मोहम्मद
 में ये तरंगे निश्चित ही आपके मन को सुन्न देंगे।
 सादर आमंत्रण आपको।

निवेदक : रवि मिहदारकर
 संजय मेहता



आयोजक : इन्दौर टेबल टेनिस परिवार

कृपया A-P के बीच बैठें।

Celebrating 25 years in service
 ISKCON
Bhakti Kala Kshetra
 Division of Center for the Performing Arts
 Founder: Acharya
 H.H. G. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Spirit of Unity Concerts
Radha Krishna Utsav

Saturday, 23rd August
 an exclusive bhajan concert with sankirtan by
Dr. Prabha Atre
Smt. Anjali &
Pt. Ajay Pohankar


at Iskcon Auditorium, Juhu ~ 7.30 p.m.
 Donor passes available at: Iskcon ☎: 26201678
 enquiries: 9892215873 Donation Rs. 300/- 200/- 100/-

जलसा समाप्त हुआ पर श्रोता बैठे रहे

इंदौर, ८ अगस्त (प्रभा) - जलसा समाप्त हुआ पर श्रोता बैठे रहे। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम का समापन हुआ, लेकिन श्रोताओं ने कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी जलसा में बैठकर कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने श्रोताओं को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने श्रोताओं को कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने श्रोताओं को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने श्रोताओं को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने श्रोताओं को धन्यवाद दिया।

जलसा समाप्त हुआ पर श्रोता बैठे रहे

इंदौर, ८ अगस्त (प्रभा) - जलसा समाप्त हुआ पर श्रोता बैठे रहे। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम का समापन हुआ, लेकिन श्रोताओं ने कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी जलसा में बैठकर कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने श्रोताओं को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने श्रोताओं को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने श्रोताओं को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने श्रोताओं को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने श्रोताओं को धन्यवाद दिया।



NEHRU CENTRE PRESENTS

NAAD NINAAD
 GLIMPSES OF OUR MEDICAL HERITAGE

NOVEMBER 30, 1999
 7:30-10:00 P.M.
 NEHRU CENTRE AUDITORIUM

ALL NEHRU CENTENARY CELEBRATIONS

Some of her well known albums are
 Krishnam Vande with Anup Jalota
 Shri Golok Bihari Madhuram with Pt. Ajay Pohankar
 Garbha Sangeet with Sudhir Phadke

Light Classical
Thumari, Dadra, Ghazals

Bhajananjali
Bhajans and Sankirtan, Abhang

Old Melodies
Hindi and Marathi songs

C - 21, Trishna Society, Gilbert Hill, Andheri (W), Behind Andheri Recreation Club, Mumbai-400059

Tel: (022) 2620 6566 / 3093 8193 Mobile: 93237 21726